



**कार्यालय भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक/फा/भप्रआ/एसटीआई/प्रशिक्षण/8/19-20/ 1289

दिनांक:- 16/1/2020

**प्रशिक्षण कार्यशाला**

निर्देशानुसार डीआईएलआरएमपी के अन्तर्गत राज्य की अधिसूचित ऑनलाईन तहसीलों में नामान्तरकरण के आवेदन तथा ई-धरती सॉफ्टवेयर एवं भू- नक्शा सॉफ्टवेयर पर व्यवहारिक रूप से कार्य किए जाने में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक 175-86 दिनांक 16/01/2020 के द्वारा क्रमशः दिनांक 17 व 18.01.2020, 24 व 25.01.2020 एवं 31.01.2020 व 01.02.2020 को सलग्न सूची अनुसार प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भामाशाह टेक्नोहब, झालाना इंगरी, जयपुर स्थित कम्प्यूटर लैब में रखा जाना सुनिश्चित किया गया है जिसमें मध्याह्न भोजन का भुगतान आरबास के माध्यम से किया जाएगा।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार

(बलदेवराम धोंजक)

सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी,  
मुख्यावास, राजस्थान जयपुर।

दिनांक- 16/1/2020

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 1290-1304

प्रतिनिधि- सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

- 1- श्रीमान आयुक्त, (आईटी), भामाशाह टेक्नोहब झालाना इंगरी जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रशिक्षण हेतु लैब इत्यादि की उचित व्यवस्था करवाने का श्रम करावे।
- 2- निजी सचिव, भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर/ निजी सहायक, अति. भूप्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, निबन्धक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
- 4- एनआईसी जयपुर।
- 5- सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, डीआईएलआरएमपी, मुख्यावास ।
- 6- प्रभारी, भू प्रबन्ध प्रशिक्षण, संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर व्यवस्था करावे।
- 7- श्री राहुल मीना, श्री अजीत बधाला, श्री अनील गंगवाल सूचना सहायक, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर व्यवस्था करावे।
- 8- श्री महेन्द्र सैनी, गिरदावर श्री शिवप्रकाश सोनी, गिरदावर, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण शिविर में नियत समय पर उपस्थित हों।
- 9- प्रभारी डीआईएलआरएमपी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त बिलों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कराकर भुगतान आरबास के माध्यम से शीघ्र कराया जावे।
- 10- श्री सत्यनारायण अग्रवाल च.श्रे.कर्म. को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण में जलपान की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करावे।
- 11- संस्थापन शाखा मुख्य कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 18,25/01/2020 एवं 01/02/2020 को राजकीय अवकाश को लगाये गये कार्मिक श्री सत्यनारायण अग्रवाल च.श्रे.कर्म.को क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।
- 12- प्रोग्रामर, भूप्रबन्ध विभाग, मुख्य कार्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी,  
मुख्यावास, राजस्थान जयपुर।